



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 453 राँची, शुक्रवार

5 आषाढ, 1937 (श०)

26 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

10 जून, 2015

संख्या: 03नि०-98/2011 रा०नि०आ० 1469 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्य्यों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, (यदि कोई

हो) विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, पलामू के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

Øelø	ftyk	fuokpu {ls-	uke ,oairk	dlj.k
1	2	3	4	5
1	i ykew	ll i ykew@ekgEnxat &01	'kkflr noh] xte&rkjk] i 0&jkeckak ekgEnxat] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
2		ll i ykew@gñjuxj&02	noarh noh] xte&cgjk] i 0&pk&Mñ] gñjuxj] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
3		ll i ykew@gñjuxj&02	eatwnoh] xte\$i 0&pk&Mñ] gñjuxj] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
4		ll i ykew@gd ðkckn m0&03	/kuat; fl g] xte&fpj\$ k[kkM] i 0&egv/jh] gd ðkckn] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
5		ll i ykew@gd ðkckn m0&03	fcjbnz i kl oku] xte\$i 0&csy fcxgk] gd ðkckn] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
6		ll i ykew@fi ijk&05	i ðkak d@ 'kek] xte&cjnknx] i 0&e/kçkuk] fi ijk] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
7		ll i ykew@fi ijk&05	igykn fl g] xte&neok] i 0&e/kçkuk] fi ijk] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
8		ll i ykew@fi ijk&05	jke i ð kn xlrk] xte&vU/kjhckx dyk] i 0&fi ijk] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
9		ll i ykew@fi ijk&05	f'ko d@kj] xte\$i 0&l j\$ k] fi ijk] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

10	II i ykew@gfjgjxat&06	fceyh nsh] xte&fo'kpij] i0&vj: vk[kq] gfjgjxat] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
11	II i ykew@gfjgjxat&06	I fupjh nsh] xte&rgjh Vkyk] i0&Mek] gfjgjxat] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
12	II i ykew@gfjgjxat&06	I qkhyk nsh] xte&txnh'ki j] i0&dyfg; k] gfjgjxat] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
13	II i ykew@uk&lhgk cktkj&07	I q Zyh jke] xte&si0&pjkbz II] uk&lhgk cktkj] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
14	II i ykew@Nykjij i0&09	'kkfur nsh] xte&[kkfVu] i0&ckkj] Nykjij] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
15	II i ykew@Nykjij i0&09	I fork nsh] xte&jkex<f i0&d moy Nykjij] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
16	II i ykew@i k.M&10	Qyefr; k nsh] xte&dt: dyk] i k.M] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
17	II i ykew@i k.M&10	I kkek nsh] xte&cl Mhg i k.M] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
18	II i ykew@ Awkjh jkM&11	chtbnz nhf{kr} xte&Hknek] i0&I rcfguh Awkjh jkM] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
19	II i ykew@ foJkeij&12	of'k'B i k.Ms] xte&Vksuk] foJkeij] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
20	II i ykew@ foJkeij&12	I fuy dqfeJ] xte&xgh] i0&Hk.Mkj] foJkeij] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
21	II i ykew@ ukokcktkj&13	Qy dekjh nsh] xte&jkt fnfj; k] i0&ukokcktkj] foJkeij] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
22	II i ykew@ p&ij&16	bjI kn vkye] xte&si0&p&ij] i ykew	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
23	II i ykew@ p&ij&16	plns oj iI kn]	fuokpu 0; ; ka dh yskk

			xte\$ i 0 & p & i g] i ykew	nkf [ky djusea vl Qy jgA
24		ll i ykew @ efnuhuxj m0 & 19	jskq nsh] xte\$ i k 0 & j tokMhg] efnuhuxj] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
25		ll i ykew @ i kVu i 0 & 20	vkykd d 0 i k.Ms] xte\$ i 0 & l xpk] i kVu] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
26		ll i ykew @ i kVu i 0 & 20	Jh d ".kk fl g] xte & fl Ddh dyk] i 0 & ejky] i kVu] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
27		ll i ykew @ i kVu i 0 & 20	l gkcp hu va kjh] xte & l rg } i 0 & l r k k] i kVu] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
28		ll i ykew @ i kVu i 0 & 21	dynhi jke] xte\$ i 0 & fgl jk cjokMhg] i kVu] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
29		ll i ykew @ i kVu i 0 & 21	ejkj h Hk p z k } xte\$ i 0 & fd 'kpi g] i kVu] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
30		ll i ykew @ i kVu i 0 & 21	fot ; jke] xte & fd 'kpi g] i qkz Vksyh] i k 0 & fd 'kpi g] i kVu] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
31		ll i ykew @ eukr & 22	l g hnz thr fl g] xte & eukr } i 0 & e > ksyh] eukr } i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
32		ll i ykew @ rjgl h & 23	'kf' k i Hkk nsh] xte & i j l kb] i 0 & x j gk] rjgl h] i yke	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
33		ll i ykew @ rjgl h & 23	l fcuk v [rjh] xte\$ i 0 & rjgl h] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
34		ll i ykew @ rjgl h & 23	l fjr k nsh] xte & n t h] i 0 & uox < } rjgl h] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
35		ll i ykew @ yt.yhxt & 24	eerk nsh] xte\$ i 0 & i wkkMhg] yt.yhxt] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
36		ll i ykew @ yt.yhxt & 24	flerk nsh] xte & [k j kV] i 0 & l k xokj] yt.yhxt] i ykew	fuokpu 0 ; ; ka dh y\$ kk nkf [ky djusea vl Qy jgA

				jgA
37		ll iyke@i kadh i0&26	fo".kqjke] xte\$i @&dkuokb] i kadh] iykew	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
38		ll iyke@i kadh i0&27	Okrek [kkru] xte&i kadh] i0&i kadh] iykew	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
39		ll iyke@i kadh i0&27	ykyeqh noh] xte&uhkcpd] i0&i kadh] i kadh] iykew	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA

jkT; fuokpu vk; Or ds vkns k l }

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jkT; fuokpu vk; kx]

>kj [k.M] jkph A
